

प्रेस नोट दिनांक-31.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 25 लीटर अपमिश्रित, 67 क्वार्टर देशी शराब, 01 किलो यूरिया बरामद किया।

(i). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव चौकी प्रभारी जिला अस्पताल तथा उनकी टीम द्वारा सिद्धपुर से अभियुक्त श्यामबहादुर सिंह पुत्र शिवपुजन नि0 सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 लीटर अपमिश्रित देशी शराब महुआ व एक किलो यूरिया खाद नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 133/21 धारा 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

25 लीटर अपमिश्रित देशी शराब महुआ

01 किलो यूरिया

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव चौकी प्रभारी जिला अस्पताल

2. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह

3. आरक्षी तिलक राज

4. आरक्षी लवलेश

(ii). उ0नि0 श्री आलोक सिंह थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1) रामनारायण पुत्र सत्यनारायण नि0 गुईया खुर्द थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर विस्की म0प्र0 मार्का शराब के साथ व (2) दिलीप पुत्र राजनारायण नि0 गुईया खुर्द थाना बरगढ़ चित्रकूट को 23 क्वार्टर विस्की म0प्र0 मार्का शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

45 क्वार्टर विस्की म0प्र0 मार्का शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री आलोक सिंह थाना बरगढ़

2. आरक्षी कुलदीप

3. आरक्षी विवेक

(iii). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विजय सिंह पुत्र छत्रजीत सिंह नि0 लुढौताकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर सुपर मास्टर म0प्र0 मार्का शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 26/2021 भादवि0 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

22 अदद सुपर मास्टर म0प्र0 मार्का शराब नाजायज

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़

2. आरक्षी राहुल यादव

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खां तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 35/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रितूरज मवासी पुत्र रामलखन निवासी जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खां थाना मारकुण्डी

2. आरक्षी आरक्षी शिवबहादुर

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 31.03.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी के द्वारा ग्राम अमचुर नेरूआ व कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ट्राफिक चौराहा, बस स्टैण्ड, सोपिंग माल में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन व मोड़ कालोनी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी मन्दिर व कस्बा राजापुर में भ्रमण कर में कर छात्राओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया ।